



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 माघ 1945 (श10)

(सं० पटना 71) पटना, मंगलवार, 30 जनवरी 2024

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

16 जनवरी 2024

सं० नि० प्रा०/ नि० 1-11/2023-खण्ड-97—प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 2423 दिनांक 27.12.2023 द्वारा बेला पैक्स, प्रखंड- औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था, जिसके अनुसार दिनांक 16.01.2024 एवं 18.01.2024 को नामांकन का कार्यक्रम निर्धारित है। इस बीच न्यायालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया के आदेश ज्ञापांक 18 दिनांक 04.01.2024 द्वारा बेला पैक्स की मतदाता सूची से कतिपय नाम हटाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु बेला पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम नामांकन के स्तर से निम्नवत पुनर्निर्धारित किया जाता है -

| | | |
|-------|--|--|
| (i) | नामांकन की तिथि एवं समय | 22.01.2024 (सोमवार) एवं 23.01.2024 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (ii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 24.01.2024 (बुधवार) एवं 25.01.2024 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि | 29.01.2024 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 06.02.2024 (मंगलवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतगणना | 06.02.2024 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |
| (vi) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 08.02.2024 (गुरुवार) |

2. प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), औरंगाबाद न्यायालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया के आदेश दिनांक **04.01.2024** के आलोक में संशोधित मतदाता सूची का व्यापक प्रकाशन दिनांक **19.01.2024** को पूर्व से विनिर्दिष्ट स्थलों पर करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन उसी तिथि को प्राधिकार को उपलब्ध करायेंगे।
3. प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), औरंगाबाद उपर्युक्त निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशन कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. बेला पैक्स के पूर्व के निर्वाचन कार्यक्रम के आलोक में दिनांक 16.01.2024 को दायर किये गये नामांकन पत्र न्यायालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया के आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगे। अर्थात् संशोधित मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं द्वारा दायर नामांकन पत्र की ही मान्यता निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।
5. अधिसूचना संख्या- 2423 दिनांक 27.12.2023 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

आदेश से,
पुरुषोत्तम पासवान,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 71-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>